

# Government of Jharkhand

## Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : d49e2760942c76aecc3b

Receipt Date : 26-Nov-2020 11:37:46 am

Receipt Amount : 20/-

Amount In Words : Twenty Rupees Only

Document Type : Affidavit

District Name : Dhanbad

Stamp Duty Paid By : VINOD JINDAL

Purpose of stamp duty paid : AFFIDAVIT

First Party Name : VINOD JINDAL

Second Party Name : AS APPLICABLE

GRN Number : 2002911740

NOTARY  
DHANBAD

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट करके या फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।



Sl. No. 02 Date. 26 NOV 2020



NOTARY  
DHANBAD

BEFORE : THE NOTARY PUBLIC : DHANBAD  
A F F I D A V I T

I, Vinod Jindal, son of Late Bhagwat Prasad, by faith Hindu, by occupation - Business, resident of Flat No. 2B, Sai Apartment, Harimandir Road, Hirapur, Dhanbad, P.O., P.S. & District - Dhanbad (Jharkhand) Pin-826001, do hereby solemnly affirm on oath and declare as follows :-

(1) That, I am Prop. of CAMRY REALTY, having its office situated at Harimandir Road, Hirapur, Dhanbad (Jharkhand)

(2) That, I am the owner of landed property situated under Plot No. 2245, and 2246, Khata No. 70, in which two flats, being Flat No. 503, 4th Floor, and (2) Flat No. 403, 3rd Floor, both situated at Siddhi Palace, Devi Para, Telipara, Hirapur, Dhanbad, The said has been butted and bounded as follows :-

- North : Open to Sky.
- South : Flat No. 504 and 404
- East : Open to Sky
- West : Lift/Corridor and Flat No. 502 and 402

(3) That, the above both flats value is Rs. 65,00,000/- (Rupees Sixty five lakh) only approx. at present time.

(4) That, I am swearing this affidavit to produce it before the authority concerned for needful.

verification

Solemnly affirmed before me by the Deponent, who is duly identified by Sri S.K. Gupta Advocate, Dhanbad..

The statements made above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I sign this verification at Dhanbad on 26.11.2020.



*B.K.*  
*26/11/2020*  
NOTARY  
DHANBAD

*Vinod Jindal*

Deponent  
Identified by

*S.K. Gupta*  
*26/11/2020*  
Advocate.

Notary Public, Dhanbad.  
Authorised  
u/s 297 (1) (c) of the Cr. P.C. 1973  
(Act No 11 of 1974) & u/s (8) of  
of the Notaries Act 1952  
, Act No 53 of 1952



**PODDAR AGARWAL & CO.**  
Chartered Accountants

ADDRESS : RGM, 8/79 ASWINI NAGAR  
2ND FLOOR, BEHIND CALCUTTA PUBLIC SCHOOL  
JORAMANDIR, KOLKATA - 700 059  
CONTACT : 9883760030/9331926937  
EMAIL : poddaragarwalandco@gmail.com


**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

This is hereby certified that **Mr. VINOD JINDAL**, S/o SRI BHAGWAT PRASAD, having **PAN : AMKPJ8629C**, R/o 2B, SAI APARTMENT, NEAR PANCHMUKHI HOTEL, HARI MANDIR ROAD, HIRAPUR, JHARKHAND – 826001 has total **Net Worth of Rs. 31,10,233.94 (Rupees Thirty One Lakh Ten Thousand Two Hundred Thirty Three and Ninety Four Paise Only)** as on **31<sup>st</sup> March 2020**.

The same has been certified based on the Balance Sheet, Statement of Assets & Liabilities, Income Tax Return, books of Account and other documents presented before us for verification.

The Certificate has been issued on request and can be presented before authorities as and when required.

**FOR PODDAR AGARWAL & CO.  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN 329486E**

  
**PRADIP AGARWAL  
PARTNER  
MNO – 305626  
UDIN: 21305626AAAACI9533**



**PLACE : KOLKATA  
DATE : 05/04/2021**

BRANCH OFFICE : ASANSOL



Handwritten text in Hindi/Urdu script, likely a preliminary note or a signature. It is partially obscured by other markings.

*Handwritten signature*

*Mohana Chakravarty  
27/9/65*

Indenture of Sale.

*Handwritten signature*

This Deed of Absolute Sale, is executed this the 27th day of September One thousand Nine hundred and Sixty five by 1) Sashi Mohan Chakravarty son of late Madha Mohan Chakravarty by faith Hindu Brahmin by occupation business, resident of Barrackpore, District 24 Parganas, West Bengal, hereinafter called the Vendor which expression unless otherwise excluded by or repugnant to the context, will include his heirs, successors, assigns, executors and administrators.


In favour of

1) Krishna Murari Sahay, 2) Hare Murari Sahay and 3) Tripurari Sahay sons of Kamala Prasad Sinha by faith Hindu Kayastha, No. 1 & 3 by profession lawyers and No. 2 Professor, residents of Hirapur, Dhanbad, P.S. Dhanbad, District Dhanbad, hereinafter called the Purchasers which expression unless otherwise

*Handwritten signature*

*Tripurari Sahay*

*Narain Sahay  
Santosh Sahay*



2.

*Sarai Mohan Chikhandy  
27/9/65*

excluded by or repugnant to the context will include their heirs, successors, assigns, executors and administrators.

Whereas the lands described in the Schedule (A) below in mouza Hirapur within Dhanbad P.S. originally belonged to M/s Bhusan Chandra Pal, Lakhi Kanta Pal and Bejoy Pal of Hirapur in permanent raiyati right And

Whereas the said M/s Bhusan Pal, Lakhi Kanta Pal and Bijoy Pal while in possession of the Schedule (A) land, by various acts of possession, sold the lands described in the schedule (B) below out of the schedule (A) land by registered deed no.4976 of 1947 of Dhanbad Sub-registry office on receipt of valuable consideration, to one Manindra Lal Bhattacharjee son of Late Jagat Chandra Bhattacharjee and

Whereas the above mentioned Manindra Lal

One thousand seven hundred and seventy six  
the purchasers, in presence of the Sub Registrar, the receipt

*K. B. D. K. R. L. P. S.  
Narain Sahay  
Sanjosh. Sahay  
Tropurani Sahay*





5.

Savi Mohan  
Chakravarty  
27/9/65

c) That the property hereby conveyed has not been transferred, alienated or encumbered in any manner by the vendor, . If however due to defect in vendor's title the purchasers are deprived from the conveyed land or any part of the same, the purchasers will be entitled to compensation for such deprivation from the vendor.

d) The Vendor agrees to execute any further deed or assurances that may be necessary in order to perfect the title of the purchasers in respect of the conveyed property.

e) All rents and taxes payable in respect of the schedule D property upto this date of sale will be paid by the vendor who will keep the purchasers indemnified from any such claim.

f) The vendor will deliver possession of the conveyed land to the purchaser.

4. Anna one as rent besides usual cess is proportionately payable in respect of the property hereby conveyed and the purchasers from this date will remain liable to pay the same and will get their names mutated in respect of the property, in the sherista of the State Government, the present landlord.

In witness whereof, the vendor has executed this

KRBH/CR/1488  
Narain Sahay  
Santosh. Sahay.  
Tripunni Sahay



6.

Sri  
Mohan  
Chakravarty  
27/9/65

of absolute sale on the day month and year first above written.

Schedule A.

District Dhanbad F.S. Dhanbad Fergana Jharria mouza Hirapur  
mouza no.7 Khatian No.70

Plot No.2245 area .41 decimal.

Plot no.2246 area .41 "

Plot no.2244 area ~~.02~~ .02 dec.

Total .84 decimals

Schedule B.

Out of the schedule A lands

Plot no.2244 area .02

Plot no.2245 area .41

Out of plot no.2246 only .23 on the northern side.

Total .66 decimal.

Schedule C.

Out of the schedule B lands one bigha covering

1) .23 decimal of plot no.2246

2) .10 decimal of plot no.2245

Total .33 decimal.

Schedule D.

Out of the schedule C land a piece of land covering

three thousand six hundred sq.feet being part of plots no.

14312  
1421111111

Narain Sahay.  
Santosh Sahay.  
Tripathi Sahay

7.

Sasi Mohan  
Chakravarty  
27/9/65

123456789  
101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

2245 and 2246 delineated and coloured red in the plan attached to this deed.

Witnesses :-

1. Ashutosh Bhanacharya, Hirapur, Dhambar
2. Sunil Kumar Bhattacharya, Hirapur, Dhambar
3. Basundey, Dhambar
4. Rana Pate Mazumdar  
Advocate Dhambar  
27.9.65


Typed by

Mohan  
Shankar  
27.9.65

Narain Sahay  
Santosh Sahay

Trisparani Sahay

PART PLAN OF PLOT NO. 7.  
 HANA (DHANBAD) JHARIA NO. 7.  
 DIST: DHANBAD.  
 SCALE 1" = 330'-0"




PLAN NOT IN SCALE  
 27/9/68

REFERENCE :-

- 1:- THE PURCHASED LAND 3/4 (EIGHT QUARTER) DECIMAL OR 5 (FIVE) KATHAS FROM KHATA NO 70 AND PART PORTION OF PLOT NO 2245 FROM SOUTHERN SIDE AND PART PORTION OF THE PLOT NO 2246 FROM NORTHERN SIDE. AREA AS SHOWN IN PLAN.
- 2:- THE PROPOSED ROAD 10 (TEN) FEET WIDE WILL HAVE TO LEAVE BY THE PURCHASER FROM EASTERN SIDE OF HIS LAND AS SHOWN THUS ---
- 3:- PURCHASED BY I) SRI KRISHN MURARI SAHAY II) SRI HARE MURARI SAHAY III) SRI TRIPURARI SAHAY AND THEY ALL ARE SIO CHAKARVARTY.
- 4:- SOLD BY SRI SASTI CHAKARVARTY SIO LATE RADHA MOHAN CHAKARVARTY OF HIRAPUR, DHANBAD.
- 5:- BOUNDARY OF THE LAND :-  
 NORTH:- THE PART OF PLOT NO 2245 LAND OF SMT. SIROMONY DEVI.  
 SOUTH:- THE PART OF PLOT NO 2246 LAND OF SRI RAJENDRA PR. SINGH.  
 EAST:- PLOT NO 2265 AND WEST:- PLOT NO 2235.

Surveyed by  
 U.S. Rao

*Tripurari Sahay*  
 K.B.H  
 162110H  
 Navin Sahay.  
 Santosh. Sahay.



98069

Certified to be a True Copy

for Rs 0/-  
25.2.2000

Handwritten notes on the left side of the page, including dates like 27.9.65 and 26.10.65, and some illegible text.

An deed of sale This deed of Absolute sale is executed this the 27th day of September one thousand nine hundred and sixty five by Sashi Mohan Chakravarty son of Late Radha Mohan Chakravarty by faith Hindu Brahmin by occupation business resident of Barua CK Post District 24 pargana West Bangal hereinafter called the vendors which expression unless otherwise excluded by or defendant to the context it will include his heirs successors assigns executors administrators. In witness whereof Srimati Srimani Devi wife of Sri Binod Bhari Lal of mouza Nawagarh P.S. Baghmara Dist. Bankura by faith Hindu Kayastha by profession Housewife hereinafter called the purchaser which expression on page - 1 (Page 2 - Sashi Mohan Chakravarty 27.9.65) unless otherwise excluded by or defendant to the context it will include their heirs successors assigns executors administrators whereas the land subscribed in the schedule (A) below is mouza Hitar within Dhanbad P.S. Baghmara

Handwritten notes on the right side of the page, including the name 'S. B. E. Z' and other illegible text.

For M/s CAMRY REALTY  
Unauthenticated

Signature/Auth Signatory








Here to be enjoyed in respect of the said premises  
 with such further and other covenants and indemnities which  
 are hereby agreed to and assured to the purchaser & within  
 the land hereby conveyed there is a road ten feet wide east  
 to west (page 6 Sasi Mohan Chakravarty 27.5.65) on the eastern  
 side of the conveyed land which will be kept open as shown  
 for the advantages and approaches to the rest of the schedule  
 land and the purchaser will have no right to block or obstruct  
 the same under any circumstances. (3) The vendor hereby  
 assure the purchaser and covenants (a) That the property hereby  
 conveyed is the exclusive property of the vendor and is in  
 his possession (b) That the vendor being the absolute owner of  
 the schedule D property is entitled to convey the same. (c)  
 That the property hereby conveyed has not been transferred  
 alienated or encumbered in any manner by the vendor. It  
 however due to defect in vendor's title the purchaser is  
 deprived from the conveyed land or any part of the same. The purcha-  
 ser will be entitled to compensation for such deprivation from  
 the vendor (d) The vendor agreed to execute any further deed or  
 other documents that may be necessary in order to perfect the  
 title of the purchaser in respect of the conveyed property.  
 (e) All rents and taxes payable in respect of the schedule D  
 property up to this date of sale will be paid by the vendor who  
 will keep the purchaser indemnified from any such claim  
 (page 6 Sasi Mohan Chakravarty 27.5.65) (f) The vendor will  
 deliver possession of the conveyed land to the purchaser. 4

For M/s. C. V. REALTY  
 United India

With Signatory



Anna are as set besides usual cers in proportionately pay-  
 ble in respect of the property hereby conveyed and the  
 purchaser from this date will remain liable to pay the same  
 and will get his name mutated in respect of the property  
 in the records of the State Government - The present  
 landlord. In witness whereof the vendor executed this deed  
 of absolute sale on this day month and year first above  
 written. Schedule 'A' District Dhanbad P.S. Dhanbad Pergana

Jharia mouza Hirapur mouza No. 7 Khata No. 70  
 Plot No. 2245 area 41 decimal  
 Plot No. 2246 area 41 "  
 Plot No. 2244 area 0.2 "  
 ----- Total .84<sup>2</sup> decimals

Schedule 'B' out of the schedule A lands  
 Plot No. 2244 area 02  
 Plot No. 2245 area 41  
 out of Plot no. 2246 only .23 on the western side  
 ----- Total .66 decimals


on page 7 (page 7 Sasimohan Chakravarty 27.9.65)  
Schedule 'C' out of the schedule 'B' lands one bigha covering  
 (1) .23 decimals of Plot no. 2246  
 (2) .10 decimals of Plot no. 2246  
 ----- Total 33 decimals

Schedule 'D' out of the schedule C land a piece of land  
 covering three thousand six hundred sq. feet equal to 8 Kathas  
 or .08 1/4 decimals being part of Plot No. 2245 delineated and  
 coloured red in the plan attached to this deed. sash

For M/s CAMBY RE...

*Unmodified*





Mohan Chakrabarty witnesses: (1) Ashutosh Shetty Chatterjee  
 Hirapur Dhanbad (2) Sunil Kumar Shetty Chatterjee Hirapur  
 Dhanbad (3) Baskdeb Roy Dhanbad (4) Ram Prasad Mazum-  
 dar Advocate Dhanbad 27.9.65 typed by Ram Prasad 27.9.65  
 No. 751/65-66 Sold to Sashi Mohan Chakrabarty  
 Dhanbad and judicial stop for Pt. 831 (75-8) on 27.9.65  
 Singh 27.9.65 S.C. Dhanbad Sashimohan Chakrabarty  
 27.9.65 No. 751/65-66 Sold to Sashimohan Chakrabarty  
 of Hirapur Dhanbad and judicial for stop for Pt. 831-60  
 (75+8) only A.B. Singh 27.9.65 S.C. Dhanbad.

प्रतिनिधित्व  
 श्री विष्णु मुकुन्द  
 90.92.82

उपरोक्त  
 नमिनीकान्त का  
 90.92.84

सिद्धमन्  
 राधाकृष्णलाल  
 90.92.82

प्रतिनिधित्व  
 श्री राजकान्त चौधरी  
 90.92.84

प्रतिनिधित्व  
 श्रीमन्मन्मन्  
 (मि)  
 25.2.22

25.2.22

सिद्धमन्  
 मन्मन्मन्  
 25.2.22

R.O  
 25.2.22



हरियाणा सरकार

झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

January 17, 2018

पंजी II प्रति

भाग वर्तमान	24	पृष्ठ संख्या	5333										
जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हलका का नाम	हलका-02	इस्टेट का नाम	झारखंड				
मौजा का नाम	हीरापुर	होलिडिंग संख्या	5333	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	7						
<p>त्रिपुरारी सहाय, पिता-कमला प्र० सहाय, जाति- एवं नवीन सहाय, पिता-कृष्ण मुरारी सहाय, जाति- एवं संतोष सहाय, पिता-कृष्ण मुरारी सहाय, जाति- एवं मनीरमा सहाय, पति- स्व० हरे मुरारी सहाय, जाति-</p>													
खता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार						लगान	सेस			
70	2245,2246	0 ऐ 8.25 डि 0 हे	दा० खा० केश न० 1130(2) 2015-16 के आदेशानुसार ज० न० 69 से घटाकर दर्ज किया						5	7.25			
	कुल परिमाण	0 ऐ 8.25 डि 0 हे											
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	नागत बकाया	नागत चानू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चानू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चानू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चानू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चानू साल
29/08/2015	017391	2015	2016	0	5	0	1.25	0	2.5	0	2.5	0	1

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें

प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें

15 CAMRY REALTY  
Vinod Jindal  
Proprietor/Auth. Signatory

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
 लगान रसीद

(4) मनीषा सहाय

पति स्व० सुरेश मुरारी सहाय



Sch XIV F. No. 180V

जिला का नाम धौलपुर  
 अनुमण्डल का नाम डीरापुर  
 अंचल का नाम डीरापुर  
 मौजा डीरापुर  
 थाना व/थाना नम्बर 07

V  
 1. त्रिपुरारी सहाय  
 पिता- कुल्लू प्रसाद सहाय  
 2. शशी सहाय  
 पिता कुल्लू मुरारी सहाय

रसीद क्रमांक 21  
 रजत का नाम 3. खंजीव सहाय  
 पिता का नाम स्व० कुल्लू मुरारी सहाय  
 जमाबन्दी नम्बर 5333

AQ17391

खाता संख्या <u>70</u>	खेसरा संख्या <u>2245, 2246</u>	रकबा (एकड़ में) <u>05 कड़</u>
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

जोत की सालाना मांग एवं मांग का विवरण (बकाया एवं हाल) - चालू वर्ष का

मांग हाल	वार्षिक	बकाया				विगत वर्ष	2015-16
		3 वर्ष से ज्यादा	3 राज	2 रा. वर्ष	हाल		
<u>5.15</u>	<u>5.15</u>						<u>5.15</u>
सेस	<u>1.25</u>						<u>1.25</u>
*ब्याज	<u>2.50</u>						<u>2.50</u>
विविध	<u>2.50</u>						<u>2.50</u>
योग	<u>1.25</u>						<u>1.25</u>
	<u>12.50</u>						<u>12.50</u>

अदायगी	भुगतान का विवरण				हाल	अग्रिम
	3 वर्ष से ज्यादा	3 राज	2 रा. वर्ष	विगत वर्ष		
लगान					<u>5.15</u>	
सेस					<u>1.25</u>	
*ब्याज					<u>2.50</u>	
विविध					<u>2.50</u>	
योग					<u>1.25</u>	

- कुल योग शब्दों में 12.50 (दो बार दस रुपये मात्र)
- नाम अदाकर्ता गीता
- कुल बकाया 12.50

(हल्लाक) [Signature]  
 हस्ताक्षर एवं दिनांक

\* खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।  
 SPL/2013

दा. नं. 130 (II) 2015-16

For M/s CAMRY REALTY  
Vinod Mehta  
 Proprietor/Auth. Signatory

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या..... 1130 ( 11 ) / 2015-16

## आदेश फलक

आवेदन की तिथि 26/8/15  
अभियुक्तों की तिथि 27/8/15  
निर्दिष्ट तिथि 28/8/15

अभियुक्त

दिनांक

① श्री/श्रीमती पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर। श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती

② आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती

पिता/पति

6/8/15

धाना..... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।

आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा.....

मौजा नं० 0.7 खाता नं० 70 प्लॉट नं० 2845, 2846

रकबा 0.5

दलील सं० 14972 दिनांक 27.09.65 के

द्वारा श्री/श्रीमती..... से

प्राप्त किया है।

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक..... को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी धनबाद।

जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।

20/8/15

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -

1. भूमि रैयती खाते की है।

2. जमाबंदी सं० 69 में विक्रेता की विक्रेता के..... के नाम लगान से रसीद कट रहा है।

3. आवेदक निर्बाधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।

4. निबंधन धनबाद/कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा-अन्तर मुद्रांक की रसीद को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करस लिया गया है।

5. प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक को जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी धनबाद।

अंचल अधिकारी धनबाद।

शुद्धि पत्र प्राप्त किया

For M/s CALIBRE REALTY

Vinod Kumar



# में निहित इस्टेटों के अभिधारियों ( हैयल) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्ध पत्र

धनबाद, अनुमण्डल - धनबाद अंचल - धनबाद, हल्का सं०-(II) स्टेट का नाम - झारखण्ड

आवेदन का क्रमांक 281/2015  
अभिलेख का क्रमांक 291/2015  
नया नंबर 281/2015

पंजी संख्या 27 में नामान्तरण के संख्या	2	गाँव	3	धाना और धाना संख्या	4	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	5	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और अधेश की तारीख	6	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री दान विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	7	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	8	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की ग	9	अभ्युक्ति	10
दा० खा० 1130 (II) 15-16		घोरखुर	धनबाद 07	खाता- 70 - - प्लॉट- 2245, 2246 - - रकबा- 05 अरब ( 8.25 अरब ) लगान- 5.00 रु० /	अंचल अधिकारी, धनबाद	विक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 14972 27.09.65 आपब पत्र सं - 02/7.4.15	पुराना जमा०- 69 - - पुराना रैयत- सुकण पत्र नया रैयत- 1) सि० सुकण पत्र संख्या 1000 अरब 2) अरब संख्या 1000 - सुकण पत्र संख्या 1000 3) सुकण पत्र संख्या 1000 - सुकण पत्र संख्या 1000 4) सुकण पत्र संख्या 1000 - सुकण पत्र संख्या 1000	जमा सं० - - - में दर्ज किया									

शापांक संख्या..... ता०..... 2015  
कर्मचारी हल्का सं० (II) दो जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

FOR M/S CAMRY REALTY  
Vijodjyadav

Page No./for/Auth. Signatory

अंचल अधिकारी धनबाद  
28/11/15

मने-मिलान किया  
28/11/15

भरे हुए फोटो लगे  
किया गक 28/11/15  
प्रतिलिपि/रकब

1/17/2018

Untitled Page



झारखंड सरकार

झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

January 17, 2018

## पंजी II प्रति

भाग वर्तमान	19	पृष्ठ संख्या	4313										
जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हलका का नाम	हलका-02	इस्टेट का नाम	झारखंड				
मौजा का नाम	हीरापुर	होलिडिंग संख्या	4313	तौजी संख्या	0	थाना नम्बर	7						
श्री रवि कुमार लाल वो श्री स्पेश कुमार लाल, पिता-स्व0 बिहारी लाल, जाति-													
खता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार						नगान	सेस			
70	2245	0 ऐ 8.25 डि 0 हे	दा0 खा0 केश स0 3003 (2) 2006-07 के आदेशानुसार थोका स0 069 से घटकर दर्ज किया						5	7.25			
	कुल परिमाण	0 ऐ 8.25 डि 0 हे											
तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	नागत बकाया	नागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

नक्शा देखें

BACK

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे

प्लॉट का नक्शा देखने के लिए प्लॉट नंबर क्लिक करें

For M/s CAMRY REALTY

Proprietor/Auth. Signatory

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
लगान रसीद

V

Sch XIV F. No. 180V

जिला का नाम  
अनुमण्डल का नाम  
अंचल का नाम  
मौजा  
थाना व थाना नम्बर

पुष्पा  
पुष्पा  
पुष्पा, 07

रसीद क्रमांक JH A004913  
रेयत का नाम श्री रजि कुमर लाल  
पिता का नाम श्री रजि कुमर लाल  
जमाबन्दी नम्बर 4313

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
70	2245	8 5/8

जोत की सालाना माँग एवं माँग का विवरण (बकाया एवं हाल) चालू वर्ष का

हाल	माँग	वार्षिक	बकाया			हाल	अग्रि
			3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष		
	पुष्पा					2007087	20117
	लगात	5200				35200	5200
	सेस	1300				9200	1300
	* ब्याज	2600				17300	2600
	विविध	2600				17300	2600
	योग	12500				9200	12500
						86200	12500

अदायगी	वार्षिक	बकाया			हाल	अग्रि
		3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष		
						2007087
	लगात				35200	5200
	सेस				9200	1300
	* ब्याज				17300	2600
	विविध				17300	2600
	योग				9200	12500
					86200	12500

- कुल योग शब्दों में 98700
- नाम अदाकर्ता श्री (श्री रजि कुमर लाल पुष्पा)
- कुल बकाया 7

(हस्ताक्षर एवं दिनांक)

\* खास महाल का बकाया आदर्शकारी पर (सिवाय सेस बकाया जिन पर कि. सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।  
SPL/2013

For M/s CAMRY REALTY  
Vinoj Patel  
Proprietor/Auth. Signatory



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदन को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
8-3-07	11-4-07	15-4-07	15-4-07	15-4-07

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चम्पारण  
शारिकल खानिज मुब संख्या 3003 (11) 2006-07  
आदेश प्राप्त

8-3-07

आवेदन (1) श्री रवि कुमार जाला (2) श्री सुपेश कुमार जाला जिनका पृथक् विनोद विहाही जाला साक्षिभूत ब्रजजद, थाना-बाघामारा जिला-चम्पारण में नामांतरण के लिये अर्जित किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक ने भील विरापुर मौजा नं० 04 खारग नं० नं०, ब्लॉक नं० 2245 खल्वा 8 में प्रस्ताव नं० सं० 269 दिनांक 1-2-07 से द्वारा उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है। मूल आवेदन पर हल्का संप्रदायी के ऑनच हेतु में, इस बीच आग्र इन्वेस्ट मिडिल करें। अगिलेख दिनांक 26-3-07 को अर्जित किया है।

[Signature]  
8/3  
अंचल अधिकारी  
चम्पारण।

26-3-07

अगिलेख अर्जित किया गया। आग्र इन्वेस्ट का मामला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का संप्रदायी। अंचल निर्णय का ऑनच अर्जित प्राप्त है, जिसके अनुसार (1) भूमि रिकॉर्ड खानिज में (2) जमखाने सं० 869 में शिरोमनी देवी के नाम से लगान रकम कट रहा है। (3) आवेदक मिबंधित इन्वेस्ट द्वारा शक्ति प्राप्त कर प्रस्ताव जमीन पर इस्तेमाल कर रहा है। (4) मिबंधन, चम्पारण मिबंधन कार्यालय से प्राप्त है। (5) प्रस्ताव भूमि जैट अर्जित, आदिवासी खारग, भूदान, वनभूमि तथा बी. सी. सी. लैंड के क्षेत्र से बाहर के अंचल हल्का संप्रदायी। अंचल निर्णय के ऑनच अर्जित तथा अनुशंसा के आधार पर अर्जित भूमि का शारिकल दावा

FOR M/S CA...  
[Signature]





आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र विज्ञापन करें  
 एवं हलका कीमतवादी से एक सप्ताह में अनुपातन प्रतिवेदन मांगें।

लेखापत्र एवं संबंधित  
 ऑफिस-असफाद  
 मंत्रालय अधिकारी  
 यन्त्रालय

ऑफिस-असफाद  
 26/3  
 मंत्रालय अधिकारी  
 यन्त्रालय।

श्री ज्ञाना विद्या नया  
 2/1/10  
 यन्त्रालय

श्री विद्या नया  
 2/1/10  
 यन्त्रालय

विद्यानगर नया मुक्ति  
 श्री 2/1/10  
 यन्त्रालय  
 9-4-2007  
 मंत्रालय  
 यन्त्रालय



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
9-4-07	11-4-07	5-4-07	9-4-07	9-4-07

सुनिश्चि पात्र

जिला-चम्पारण, सुभाषपुर, चम्पारण, मंडल-चम्पारण, हाका (11) स्टेट-भारत

घर नंबर 3003 (11) 06-07  
हरापुर  
चम्पारण  
 07

खाला नंबर 20, लॉट नंबर 2245 रकबा 8 1/4 ईका  
 लगान 5.00 रु. अलग से सेवा।  
 अंचल अधिकारी  
 चम्पारण

कमील शापक पात्र सं 269 ति 1-2-07 इलाहाबाद  
 सुभाषपुर  
 बुराना रैंगर

बिरोमरी देवी, पति-जी. बी. बाल साठ नवछाड, पत्त सं 869  
 नया रैंगर

1) श्री रवि कुमार बाला 2) श्री सपेश कुमार बाला  
 पिता स्व. विहारी बाला साठ-चम्पारण।

की द्वारा दिया गये  
 9/4/07  
 अधिकारी

की द्वारा दिया गये  
 9/4/07  
 अधिकारी

सं-26/3  
 26/3  
 अंचल अधिकारी  
 चम्पारण।

For M/s CAMRY REALTY  
 Vinod Kumar  
 Signatory

परिष्कार  
 9-4-2007  
 अधिकारी  
 चम्पारण